

# **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS** **(FAQs)**

**(UNDER-GRADUATE COURSES)**

## **SANSKRIT STUDIES RELATED QUESTIONS**

**प्रश्न.1** दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन के विविध प्रारूप कौन से हैं?

**उत्तर.1** दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत Honours, Generic Elective, Discipline, S.E.C., M.I.L. और A.E.C.C. कोर्स पाठ्यक्रमों के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। उपरोक्त सभी कोर्स के पाठ्यक्रम वर्तमान संदर्भ के अनुरूप एवं अनुकूल हैं।

**प्रश्न.2** संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों किया जाए?

**उत्तर.2** विश्व की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृतनिष्ठ हैं, कमोवेश किसी न किसी रूप में संस्कृत से प्रभावित भी हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से शब्दों की मात्रा, वर्ण से पद एवं वाक्य के परिष्कृत ज्ञान के लिए संस्कृत उपयोगी है।

**प्रश्न.3** क्या संस्कृत छात्रों के लिए कोई अन्य विशिष्ट संस्थाएं हैं, जहां से वे स्नातक के उपरांत विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं?

**उत्तर.** जहां सभी विषयों से बी.एड. करने हेतु अलग-अलग संस्थाएं हैं वहीं श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जैसे विश्वविद्यालय जिन की शाखाएं संपूर्ण भारतवर्ष में हैं। इन शिक्षण संस्थानों से केवल संस्कृत के विद्यार्थी बी.एड., पी.एच.डी. आदि अनेक कोर्स कर सकते हैं।

**प्रश्न.4** संस्कृत अध्ययन के पश्चात के क्षेत्र कौन-से हैं?

**उत्तर.4** विषय एवं भाषा दोनों ही स्तरों पर संस्कृत उपयोगी है। प्राचीन सभी विधाएं एवं शास्त्र संस्कृत भाषा में ही हैं। आयुर्वेद, शल्य-चिकित्सा, आयुष्यमंत्रालय, योग-संस्थान, बैंक में भाषा अधिकारी, चलचित्रों में संवाद-लेखन एवं वेशभूषा का सैद्धांतिक कार्य, पांडुलिपि संग्रहालय में अनुवादक, रेडियो एवं दूरदर्शन में समाचार वाचन, सेना में पुरोहित कार्य, विद्यालय एवं

महाविद्यालयों में अध्यापन आदि संस्कृत के जीविका क्षेत्र हैं।

**प्रश्न.5** संस्कृत की वैश्विक स्थिति क्या है?

**उत्तर.5** भारत एवं अन्य देशों में चल रहे शोध में भी संस्कृत का अनुपम योगदान है। नासा ने संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है। तनाव-प्रबंधन के लिए 'योग' का महत्व विश्व स्तर पर किसी भी दृष्टि से अनावरित नहीं है।

**प्रश्न.6** संस्कृत संबद्ध महाविद्यालय की गतिविधियां क्या हैं?

**उत्तर.** महाविद्यालय दिल्ली संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में एवं अपने स्तर पर भी संस्कृत संबंधित गतिविधियां यथा - नाट्य मंचन, भाषण, वाद-विवाद, श्लोकांत्याक्षरी, श्लोक गायन, लघु चलचित्र प्रतियोगिता आदि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में आयोजित होती रहती हैं। इससे छात्र-छात्राओं को व्यक्तित्व परिष्करण का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है।

**प्रश्न.7** संस्कृत के मेधावी छात्रों के लिए क्या योजनाएं हैं?

**उत्तर.7** राष्ट्रीय-संस्कृत संस्थान एवं दिल्ली संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों को प्रतिभा पुरस्कार प्रदान करता है।